

आज दिनांक 11 सितम्बर, 2018 को अपरान्ह 01:15 बजे मर्चेट्स चेम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, कानपुर उद्योग व्यापार मंडल एवं इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में मर्चेट्स चेम्बर के सर पदमपत सिंघानिया सभागार में “उत्तर प्रदेश में उद्योग एवं व्यापार: बदलता परिवेश” पर सत्र का आयोजन किया गया।

उक्त सत्र के मुख्य-अतिथि डॉ. दिनेश शर्मा, उपमुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, श्री सुनील वैश्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन थे।

मर्चेट्स चेम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बी.के. लाहोटी, ने माननीय उप-मुख्यमंत्री, डॉ. दिनेश शर्मा, उत्तर प्रदेश, सरकार कानपुर की मेयर श्रीमती प्रमिला पाण्डेय, श्री सलिल विश्नोई, समस्त सहयोगी संस्थाओं के सदस्यगण, मीडिया कर्मियों का स्वागत व अभिनन्दन किया। श्री लाहोटी ने कुछ समस्याओं जैसे E-way Bill में IntraState E-way bill की न्यूनतम सीमा कम से कम 1 लाख होनी चाहिए तथा प्रमुख रूप से जो समस्याओं हैं उनमें Infrastructure मजबूत करने एवं सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित की जाने वाली योजनाओं के निर्बाध एवं शीघ्र क्रियान्वन की आवश्यकता है, आदि पर भाषण को केन्द्रित किया। उक्त प्रेस-विज्ञप्ति के साथ मर्चेट्स चेम्बर द्वारा माननीय उपमुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, जी को प्रस्तुत ज्ञापन (MoU 1 व MoU 2) संलग्न है, कृपया प्राप्त करें।

श्री सुनील वैश्य ने इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से कुछ प्रमुख समस्याओं जैसे लीज होल्ड लैंड व हाउस टैक्स के बढ़ोत्तरी आदि पर अपने भाषण को केन्द्रित किया। श्री वैश्य ने माननीय उपमुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया जिसमें व्यापारिक व शहर की समस्या तथा उससे जुड़े हुए सुझाव लिखित थे।

मुख्य-अतिथि डॉ. दिनेश शर्मा, उपमुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, ने कहा की अज हम सिर्फ विषयबद्ध होकार एक-एक बिंदु पर चर्चा केन्द्रित करेंगे। श्री शर्मा ने कहा कि वह स्वयं व्यापारिक परिवार से सम्बन्ध रखते हैं इसलिए व्यापारियों की भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। जब भी सरकार नए प्रयोग करती है सर्वप्रथम उसे पुरानी समस्या से निजात पाने का सफल उपचार खोजना पड़ता है। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का आंकलन उसके स्टॉक मार्किट, व्यापारिक गतिविधियों, एवं उस देश की मूलभूत सुविधाओं से होता है। सरकार इसी दिशा में सतत प्रयास कर रही है और काफी हद तक सफलता भी प्राप्त हुई है और इसी दिशा में प्रयास जारी है।

श्री शर्मा ने कहा की उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार से पहले (सरकारी) योजनाओं का सिर्फ शिलान्यास होता था परन्तु जमीनी स्तर पर उनके क्रियान्वन में हमेशा समस्या रही है। वर्तमान सरकार ने उत्तर प्रदेश (लखनऊ) में इन्वेस्टर्स समिट, डिफेन्स कारीडोर जैसे परियोजनाओं न सिर्फ सफलतम आयोजन किया बल्कि कई प्रतिष्ठित संस्थानों ने करोड़ों रुपये निवेश करने की प्रक्रिया भी आरम्भ कर दिया है। वर्तमान सरकार की नीतियों के चलते ही आज उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर मोबाइल का उत्पादन होने लगा है। वर्तमान सरकार के चलते ही बुंदेलखंड व पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। गुजरात सरकार की तरह उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में लैंड-बैंक बनाना है। उन्होंने कहा कि GST कौंसिल एक ऑटोनामस बॉडी है जो कि लगातार GST कर में (कौंसिल को प्राप्त सुझाव के अनुसार) सुधार के लिए प्रयासरत है। श्री शर्मा ने कहा आने वाला समय व्यापारियों, देश की आर्थिक समृद्धि, निवेश, कार्यों का विकेंद्रीकरण, अधिक से अधिक लोगों का रोजगार मिलना, समयानुसार व्यापार को टेक्निकली अपग्रेड करने का है। उन्होंने कहा कि कानपुर शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करना, गड्ढों से निजात दिलाना, नए सीवेज व जल पाईप लाइन की व्यवस्था को मजबूत करना है। श्री शर्मा ने दिसंबर, 2018 तक 80% तक बिजली देने का भरोसा दिलाया।

मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष बी.एम.गर्ग ने मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, कानपुर उद्योग व्यापार मंडल एवं इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से माननीय उप-मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा, उपमुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, मंचासीन सभी गणमान्य व्यक्तियों, समस्त सहयोगी संस्थाओं के सदस्यगणों, कानपुर के प्रतिष्ठित संस्थाओं पधारे व्यापारी एवं उद्योगबंधुओं तथा मीडिया कर्मियों का हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आज के आयोजित सत्र में समस्त प्रबुद्धजनों द्वारा कानपुर के विकास व् जीएसटी की समस्याओं व् सम्बंधित सुझावों को प्रस्तुत किया गया है तथा साथ ही (लगभग) समस्त व्यापारिक संस्थाओं की ओर से उपरोक्त विषय पर ज्ञापन भी प्रस्तुत किया गया है। श्री गर्ग ने कहा कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते ही कि आप हमारे द्वारा प्रस्तुत सुझावों का संज्ञान लेने का कष्ट करें जिससे कानपुर व् उद्योग के विकास की एक सतत प्रक्रिया प्रारंभ हो सके।

सत्र का सफलतम संचालन मर्चेट्स चैम्बर के सदस्य श्री विजय पंडित ने करते हुए कहा कि वर्तमान गतिमान समय में अधिकारियों को जागरूक होने की आवश्यकता है तथा साथ ही जनता की समस्या के सरलतम समाधान के लिए अग्रसर हों।

आयोजित किये जाने वाले सत्र में श्री अनिल अग्रवाल, श्री योगेश अग्रवाल, डॉ. आई.एम. रोहतगी, डॉ. अवध दुबे, एस.सी. गर्ग, प्रेम मनोहर गुप्ता, महेंद्र मोदी, मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, कानपुर उद्योग व्यापार मंडल एवं इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सदस्यगण, कानपुर के प्रतिष्ठित संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, व्यापारीबन्धु व् उद्योगबंधु उपस्थित थे।

सधन्यवाद